



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 966 राँची, सोमवार,

8 अक्टूबर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

##### अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-172/2017-2495 (HRMS)– भ०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-27/17, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, धारा-7/13(2) भ०नि० अधिनियम, 1988 के अभियुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा को परिवादी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए भ०नि० ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-11855, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 13 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद विभाग में योगदान दिये जाने की तिथि 18 दिसम्बर, 2017 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं०-149(HRMS), दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-11955, दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से श्री सिन्हा के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में हुई चूक के लिए प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-194, दिनांक 7 फरवरी, 2018 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध

कराया गया। उक्त आरोप पत्र विभागीय परिपत्र सं०-8000, दिनांक 2 सितम्बर, 2015 के अनुरूप नहीं रहने के कारण उपायुक्त, गढ़वा से पुनः प्रपत्र-‘क’ की माँग की गयी।

4. उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-882/मनरेगा, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा को परिवारी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से बकरी शेड योजना में रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। प्रखण्ड कार्यालय, विशुनपुरा में उपलब्ध कागजातों एवं मामले की छानबीन के पश्चात पाया गया कि परिवारी के नाम से कोई योजना पारित नहीं है और न ही ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा योजना स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्रखण्ड कार्यालय को प्राप्त हुआ है। साथ ही, श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में परिवारी द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी।

5. उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत, श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

6. इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, पलामू द्वारा भ०नि० ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या-27/17, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के अंतिम निष्पादन के पश्चात् लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name ( G.P.F. No. )	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ASHOK KUMAR SINHA ( 110011209940 )	श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	05/10/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----